



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022025-260678  
CG-DL-E-01022025-260678

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 2025/ माघ 10, 1946

No. 549]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 2025/ MAGHA 10, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2025

का.आ. 553(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.5605 तारीख 27/12/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के हसन जिले में NH-75 (पूर्व NH-48) के कि.मी. 118.601 से कि.मी.189.5 (कार्यालय विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, एन एच- 75 (48) नेलमंगला हसन अनुभाग के आर एस अग्रहारा कुनिगल, तुमकुर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ीकरण/ चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "01-01-2025" को "द हिन्दू" और "विजयवाणी" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंग मों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

कर्नाटक राज्य के हस्सान जिले में NH-75 (48) के कि.मी. 118.601 से कि.मी.189.5(कार्यालय विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, एन एच-75 (48) नेलमंगला हासन अनुभाग के आर एस अग्रहारा कुनिगल, तुमकुर)केलिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक			जिले का नाम: हस्सान		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: हसन					
गांव का नाम: देवरायपटना					
1	10/5	निजी	एनएके	0.0025	काव्या हेच् जी पत्नी प्रीतम जे
2	10/6	निजी	एनएके	0.0076	काव्या हेच् जी पत्नी प्रीतम जे
3	10/7	निजी	एनएके	0.1214	काव्या हेच् जी पत्नी प्रीतम जे
Total				0.1315	

[फा. सं. NHAI/BOT-I/11013/14/2005/LA-189/3D]

अभय जैन, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2025

**S.O. 553(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 5605, Dated:27/12/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-75 (Old 48) in the stretch of land from Km. 118.601 to Km. 189.5 (Office of the Special Land Acquisition Officer, NH-75 (Old 48) Nelamangla Hassan Section K R S Agrahara Kunigal, Tumkur) in the district of HASSAN in the state of KARNATAKA

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Hindu” and “Vijayavani” both dated 01-01-2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

#### SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-75 (Old 48) in the stretch of land from Km. 118.601 to Km. 189.5 (Office of the Special Land Acquisition Officer, NH-75 (Old 48) Nelamangla Hassan Section K R S Agrahara Kunigal, Tumkur) in the district of HASSAN in the state of KARNATAKA.**

State: KARNATAKA			District: HASSAN		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Hassan					
Village: Devarayapatna					
1	10/5	Private	NAK	0.0025	KAVYA H G WIFE OF PREETHAM J
2	10/6	Private	NAK	0.0076	KAVYA H G WIFE OF PREETHAM J
3	10/7	Private	NAK	0.1214	KAVYA H G WIFE OF PREETHAM J
Total				0.1315	

[F. No. NHA/BOT-I/11013/14/2005/LA-189/3D]

ABHAY JAIN, Director